

Assignment

std.3 Hindi

पाठ- 13; पौधो का जीवन

प्रश्न उत्तर (मौखिक):-

क. रात को बेल हिलाने पर मां ने काजल से क्या कहा?

उत्तर: रात को बेल हिलाने पर मां ने काजल से कहा,"इस समय पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए। पौधे सो गए हैं।"

ख. पिताजी ने काजल को डाल हिलाने से मना करते हुए क्या समझाया?

उत्तर: पिताजी ने काजल को मना करते हुए समझाया,"पौधे भी हमारी तरह सोते हैं,सांस लेते हैं और खाना खाते हैं।"

ग. पौधों के बारे में पहले लोग क्या सोचते थे और सच्चाई क्या है?

उत्तर: पहले लोग पौधों को निर्जीव समझते थे। बाद में प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ कि पौधों में भी जीवन होता है।

घ. पत्तों को हम किस रूप में खाते हैं?

उत्तर: पत्तों को हम साग के रूप में खाते हैं। जैसे पालक, मेथी ,सरसों।

प्रश्न उत्तर (लिखित):-

क. फूल तोड़ने के कुछ देर बाद मुरझा क्यों जाता है?

उत्तर: फूल तोड़ने पर वह डाली से अलग हो जाता है जिसके कारण उसे भोजन नहीं मिल पाता है इसलिए वह मुरझा जाता है।

ख. पेड़ की जड़े पौधों के लिए क्या काम करती है?

उत्तर: पेड़ की जड़े धरती से खनिज और पानी चूसती हैं और तने की ओर धकेलती हैं।जड़े पौधों को मिट्टी से गाड़ कर रखती है।

ग. पेड़ - पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य कौन,

किसकी सहायता से करता है?

उत्तर: पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाने का काम पत्ते करते हैं। वह हरीत्तकों की सहायता से सूर्य की गर्मी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर यह काम करते हैं।

घ.हमारा जीवन वनस्पति जगत पर कैसे निर्भर है?

उत्तर: हम पौधे की जड़, तना, पत्ती ,फल और बीज सभी खाते हैं।पेड़ पौधों से हम शुद्ध हवा भी लेते हैं।

ड.यह पौधे के कौन से भाग हैं?

उत्तर:पत्ता-मेथी ,पत्ता गोभी ,पालक.

फल- सेब ,करेला ,टिंडा, टमाटर.

तना- गन्ना,कमल ककड़ी.

बीज- मटर,चना,लोबिया.